



To,

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Kala Ghoda Fort,
Mumbai – 400 001

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Submission of Extract of Newspaper Advertisement of Post Offer Advertisement in the matter of Open Offer of AKM Creations Limited

In pursuant to the provisions of Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (*hereinafter referred to as "the Regulations"*), please find enclosed herewith copy of newspaper of Post Offer Advertisement in the matter of open offer to the Public Shareholders of AKM Creations Limited ("Target Company").

The Post Offer Advertisement has been published on March 05, 2024 in the following newspaper:

Sr. No.	Newspaper	Editions
1.	Business Standard (English Newspaper)	having national daily wide circulation in India
2.	Business Standard (Hindi Newspaper)	having national daily wide circulation in India
3.	Pratahkal	Regional Newspaper-Mumbai i.e., where stock exchange is situated

The published Copy of the same is also enclosed herewith as attachment for your reference.

This is for your kind reference and records.

For & on behalf of
Fast Track Finsec Private Limited

Sakshi
Director
DIN: 09763912

Date: 05.03.2024
Place: New Delhi

FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED

REMAKE IN INDIA

The Disney–Reliance combine will have enormous reach, market muscle, and a unique combination of broadcast and digital. Can it redefine the Indian advertising market?

VANITA KOHLI-KHANDEKAR
Pune, 4 March

Rajiv Dubey is senior general manager and head of media at Dabur India. From honey and hair oil to candy and cough drops, the ₹11,975 crore (revenue) Dabur sells an array of consumer products to Indians. In the financial year ending March 2023, it spent ₹640 crore on advertising. About 70 per cent of this was spent on television. How then does Dubey view the merging of the Reliance Industries (RIL) and Bodhi Tree Systems-owned Viacom18, into the Disney-owned Star India?

The merger, announced last week, will create a broadcaster with 110 channels such as Star Plus and Colors and a streaming app that will be roughly half of YouTube. The ₹23,000 crore firm thus created will be India's second largest after Google. It will have a leading 32 per cent share of all television viewership in India with large slices of the Hindi, Marathi, Telugu and Bengali speaking markets (see chart).

“What matters to me is how inexpensive it is to reach consumers. If this merger helps me get audiences cheaper then it is good; if it becomes more expensive then it is difficult,” says Dubey.

Krishnarao Buddha is senior category head, marketing, at Parle Products. The maker of Parle G, Monaco and other brands, spends about 85 per cent of its advertising money on television. Rao reckons nothing will change for a bit. “It is only after IPL

advertisers. Connected TV will be a significant part of this reframing,” says Vivek Couto, executive director and co-founder, MPA.

RIL also owns stakes in an array of distribution firms in cable (Hathway, GTPL) and telecom (Jio), giving it access to millions of consumers. Theoretically then it is in the best position to fuse TV and digital and sell it to advertisers.

“TV plus digital makes it very compelling,” agrees Shrikant Shenoy, associate vice president, Lodestar UM, a media buying agency. The challenge? “Data is not available in a unified manner,” points out Dubey. “The transparency in TV is not there in digital. There is a lot of ad fraud,” adds Buddha.

This time around, Disney has its back to the wall.

The metric might just come though. Sony and Viacom18's bids were half or less than that of Disney Star's \$3 billion for ICC rights from 2024-2027. Last year it paid \$2.9 billion for just the broadcast rights to the IPL.

That is almost \$6 billion for a firm that is just over \$2 billion in topline. “These are the two rights that broke Disney's commitment to India,” says an insider. The thought of explaining to aggressive US stock market analysts and investors the yearly payout for sports rights is what possibly prompted the fire sale of Star. Disney settled for a value of \$3-3.5 billion on an asset it bought for (reportedly) \$10 billion in 2018.

“The expenditure on sports rights is enormous. To make back that outlay it needs to capture a large share of total advertising revenue. And to enhance the advertising revenue market by building the right tech platform,” says Daoud Jackson, senior analyst, media and entertainment at UK-based Omdia.

That is the kind of market development Star has done ever since it came to India in the early nineties, in music (Channel V),

keep them coming to WhatsApp, Facebook or Instagram, the brands it owns. These firms offer billions of terabytes of advertising inventory across genres, audiences and geographies at rates that are one-fourth those of broadcast. Across the world Google and Meta command anywhere from 70-80 per cent of all digital advertising.

Broadcasting, which relies on professionally generated shows, films and sports, brings in roughly half the total revenues — ₹2.1 trillion — of the Indian media and entertainment and business. It is also hugely profitable.

Disney Star's entertainment television business will make an operating profit of almost ₹5,000 crore in the financial year ending March 2024 and March 2025, according to Media Partners Asia's estimates. Its sports and digital businesses, however, push the firm into losses. Therefore, even if audiences move online to the same broadcaster, they are now part of an ecosystem where the rules have been set by the tech-media majors with their huge ad-tech machines, low rates, and humongous reach.

“How do you redefine the advertising pie? No one yet in India has been able to use TV viewership and reach, combined with online video to reframe the conversation and currency for monetisation with

advertisers. Connected TV will be a significant part of this reframing,” says Vivek Couto, executive director and co-founder, MPA.

RIL also owns stakes in an array of distribution firms in cable (Hathway, GTPL) and telecom (Jio), giving it access to millions of consumers. Theoretically then it is in the best position to fuse TV and digital and sell it to advertisers.

“TV plus digital makes it very compelling,” agrees Shrikant Shenoy, associate vice president, Lodestar UM, a media buying agency. The challenge? “Data is not available in a unified manner,” points out Dubey. “The transparency in TV is not there in digital. There is a lot of ad fraud,” adds Buddha.

This time around, Disney has its back to the wall.

The metric might just come though. Sony and Viacom18's bids were half or less than that of Disney Star's \$3 billion for ICC rights from 2024-2027. Last year it paid \$2.9 billion for just the broadcast rights to the IPL.

That is almost \$6 billion for a firm that is just over \$2 billion in topline. “These are the two rights that broke Disney's commitment to India,” says an insider. The thought of explaining to aggressive US stock market analysts and investors the yearly payout for sports rights is what possibly prompted the fire sale of Star. Disney settled for a value of \$3-3.5 billion on an asset it bought for (reportedly) \$10 billion in 2018.

“The expenditure on sports rights is enormous. To make back that outlay it needs to capture a large share of total advertising revenue. And to enhance the advertising revenue market by building the right tech platform,” says Daoud Jackson, senior analyst, media and entertainment at UK-based Omdia.

That is the kind of market development Star has done ever since it came to India in the early nineties, in music (Channel V),

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

news (Star News), programming (*Kaun Banega Crorepati*), and radio (Radio City). “We will see Star back in action. It built the

POST OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF AKM CREATIONS LIMITED (“TARGET COMPANY”)
Registered Office: C-110, G/F Bholu Nath Nagar, Shahdara, Delhi, New Delhi-110032
Email: akmlace@gmail.com; Website: www.akmlace.com; CIN: L74110DL2009PLC196375

Open Offer (“Offer”) for Acquisition of upto 22,39,166 (Twenty-Two Lakh Thirty-Nine Thousand One Hundred and Sixty-Six) Equity Shares of face value INR 10/- (Rupees Ten only) each from equity shareholders of AKM Creations Limited (“Target Company”), by Arhat Touch Private Limited (Acquirer) (PAN: AAWCA4909M)

This Post Offer Advertisement is being issued by Fast Track Finsec Private Limited (“Manager to the Offer”) on behalf of the Acquirer in connection with the Offer made by the Acquirer to acquire 22,39,166 (Twenty-Two Lakh Thirty-Nine Thousand One Hundred and Sixty-Six) Equity Shares of Face Value of INR 10/- (Rupees Ten only) each (“Equity Shares”) of the Target Company at INR 15/- (Rupees Fifteen only) per Equity Shares, representing 26% of the outstanding Equity Share Capital of the Target Company (“Offer”), in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and amendments thereof (“SEBI (SAST) Regulations, 2011”) Regulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned Offer was made in the Business Standard (English-All Edition), Business Standard (Hindi-All edition) and Pratibha (Mumbai edition) on October 21, 2023 (Saturday).

1	Name of The Target Company	AKM Creations Limited
2	Name of The Acquirer and PACs	Arhat Touch Private Limited (PAN: AAWCA4909M)
3	Name of The Manager to the Offer	Fast Track Finsec Private Limited
4	Name of The Registrar of the Offer	Skyline Financial Services Private Limited
5	Offer Details: A) Date of Opening of the Offer B) Date of Closure of the Offer	Wednesday, February 14, 2024 Wednesday, February 28, 2024
6	Date of Completion of Payment of Consideration and Communication of Rejection/ Acceptance	Thursday, March 14, 2024

7. Details of the Acquisition

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Letter of Offer	Actuals
7.1	Offer Price	INR 15/- (Rupees Fifteen Only)	INR 15/- (Rupees Fifteen Only)
7.2	Aggregate No. of Shares Tenders	22,39,166 Equity Shares*	Nil
7.3	Aggregate No. of Shares Accepted	22,39,166 Equity Shares*	Nil
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Shares)	Rs. 3,35,87,490/- (Rupees Three Crore Thirty-Five Lakh Eighty-Seven Thousand Four Hundred Ninety Only).	Nil
7.5	Shareholding of the Acquirer before Public Announcement a) No. b) % of Equity Share Capital	Nil Nil	Nil Nil
7.6	Shares acquired/ to be acquired by way of Share Purchase Agreement a) No. b) % of Equity Share Capital	8,70,175 10.10%	8,70,175* 10.10%
7.7	Shares acquired by way of Open Offer a) No. b) % of Equity Share Capital	22,39,166* 26%*	Nil Nil
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement (“DPS”) a) No. b) % of Equity Share Capital c) Price of Shares acquired	Nil Nil Nil	Nil Nil Nil
7.9	Post Offer shareholding of the Acquirer and PACs	No. of Shares 31,09,341*	& of Equity Share Capital 36.10%* No. of Shares 8,70,175* & of Equity Share Capital 10.10%*
7.10	Pre & Post Offer shareholding of the Public a) No. b) % of Equity Share Capital	Pre-Offer 74,42,000 86.41%	Post-Offer 52,02,834 60.41% Pre-Offer 74,42,000 86.41% Post-Offer 77,42,000* 89.89%

* Assuming full acceptance in the Open Offer.
The Acquirer shall complete the transaction under Share Purchase Agreement within stipulated time period as provided under Reg. 22(3) of SEBI(SAST) Regulations, 2011.
\$ No share were tendered in the open offer and hence there are no changes in the shareholding of the public category.
8. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.
9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI, BSE Limited and registered office of the Target Company.
Capitalized terms used in this Advertisement, but not defined herein, shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dated February 07, 2024.
Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer:

Fasttrack Finsec
Category-1 Merchant Banker

Fast Track Finsec Private Limited
Office No. V-116, First Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Tel. No.: +91-22-43029809
Email: mb@ftfinsec.com
Website: www.ftfinsec.com
Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma
SEBI Reg. No.: MN000012500
CIN: U65191DL2010PTC200381
Place: Delhi, Date: 04.03.2024



STAR + VIACOM18 DOMINATE ALMOST EVERY MAJOR LANGUAGE
Share in TV viewership (%)

Language	Market	As on Feb 23, 2024
Malayalam	Kerala	32.7
Bengali	West Bengal	29.6
Telugu	Andhra Pradesh & Telangana	29.1
Kannada	Karnataka	28.8
Hindi	Hindi-speaking markets	19.1
Tamil	Tamil Nadu	18.7
Marathi	Maharashtra, Goa	18.4

The viewership % refers to share in that particular language or region only
Source: Lodestar UM, BARC

INDIA'S LARGEST STREAMING APPS
Unique visitors as of Jan 2024 (million people)

Total internet audience	524
YouTube	456
Disney+ Hotstar	114
JioCinema	101
MX Player	93
Zee5	57
Netflix	42
Jio TV	29
SonyLIV	26
Amazon Prime Video	19
Voot	11

Note: Disney+ Hotstar, JioCinema, Jio TV and Voot will become one post-merger
Source: Comscore India

five years down the line, at twice its current value of \$8.5 billion. If that happens, this merger would have helped restore the value Star lost in the Disney fold.

CELEBRITY FASHIONS LIMITED
CIN : L17121TN1988PLC015655
Registered Office: SDF IV & C2, 3rd Main Road, MEPZ - SEZ, Tambaram, Chennai - 600 045
Phone No.91-44-4343 2200/4343 2300; Email: investorservices@celebritygroup.com
Fax No.+91-44-4343 2360; Website: www.celebritygroup.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF POSTAL BALLOT

Dear member(s)

This is with reference to the Notice of Postal ballot dated 05th February, 2024 and Circulated to the members of Celebrity Fashions Limited (“Company”) on 09th February, 2024 for seeking approval of members for certain agenda items through Postal Ballot Process.

The Notice of Postal Ballot has already been circulated to all the shareholders of the Company in due Compliance with the Provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder.

The Company through this communication wishes to bring to the Notice of the shareholders, following changes in the said Notice of Postal ballot:

Sr. No	Content of Notice of Postal Ballot and Explanatory Statement.	Modification / Clarifications Made
1.	Item No: 1 Approval for Issue of equity shares through preferential issue. Resolution: Resolution under 1st Para in Row no 20: up to 24,97,961 (Twenty-Four Lakhs Ninety Seven Thousand Nine Hundred and Sixty one) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each of the company at a price of Rs. 20.10 /- per Equity Share (at a premium of Rs. 10.43 /- per Equity Share) aggregating up to Rs. 5,02,09,016.10/- Resolution under 2nd Para : RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for the purpose of determining the floor price of the Equity Shares under SEBI (ICDR) Regulations shall be 06 th February 2024, being the date 30 days prior to the date on which this resolution is deemed to have been passed, i.e., the last date specified for Postal Ballot (E-Voting).	Item No: 1 Approval for Issue of equity shares through preferential issue. Resolution under 1st Para in Row no 20: up to 24,97,961 (Twenty-Four Lakhs Ninety Seven Thousand Nine Hundred and Sixty one) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each of the company at a price of Rs. 20.43 /- per Equity Share (at a premium of Rs. 10.43 /- per Equity Share) aggregating up to Rs. 5,10,33,343.23/- Resolution under 2nd Para : RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for the purpose of determining the floor price of the Equity Shares under SEBI (ICDR) Regulations shall be 09 th February 2024, being the date 30 days prior to the date on which this resolution is deemed to have been passed, i.e., the last date specified for Postal Ballot (E-Voting).
2.	In Explanatory Statement item No.1 To expedite the above, the Board of Directors of the Company (“Board”) at its meeting held on 05 th February 2024 has, subject to the approval of the Members and such other approvals as may be required, approved raising funds through issuance of up to 24,97,961 (Twenty Four Lakhs Ninety Seven Thousand Nine Hundred and Sixty one) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each of the company at a price of Rs. 20.10 /- per Equity Share (at a premium of Rs. 10.43 /- per Equity Share) aggregating up to Rs. 5,02,09,016.10 to the proposed allottee, for cash consideration, by way of a preferential issue on a private placement basis.	In Explanatory Statement item No.1 To expedite the above, the Board of Directors of the Company (“Board”) at its meeting held on 05 th February 2024 has, subject to the approval of the Members and such other approvals as may be required, approved raising funds through issuance of up to 24,97,961 (Twenty Four Lakhs Ninety Seven Thousand Nine Hundred and Sixty one) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each of the company at a price of Rs. 20.43 /- per Equity Share (at a premium of Rs. 10.43 /- per Equity Share) aggregating up to Rs. 5,10,33,343.23/- to the proposed allottee, for cash consideration, by way of a preferential issue on a private placement basis.
3.	a) Particulars of the Preferential Issue including date of passing of Board resolution: The Board of Directors of the Company (“Board”) at its meeting held on 05 th February 2024, subject to the approval of the Members and such other approvals as may be required, approved raising funds through issuance of up to 24,97,961 (Twenty Four Lakhs Ninety Seven Thousand Nine Hundred and Sixty one) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each of the company at a price of Rs. 20.10 /- per Equity Share (at a premium of Rs. 10.43 /- per Equity Share) aggregating up to Rs. 5,02,09,016.10 to the proposed allottee, for cash consideration, by way of a preferential issue on a private placement basis.	a) Particulars of the Preferential Issue including date of passing of Board resolution: The Board of Directors of the Company (“Board”) at its meeting held on 05 th February 2024, subject to the approval of the Members and such other approvals as may be required, approved raising funds through issuance of up to 24,97,961 (Twenty Four Lakhs Ninety Seven Thousand Nine Hundred and Sixty one) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each of the company at a price of Rs. 20.43 /- per Equity Share (at a premium of Rs. 10.43 /- per Equity Share) aggregating up to Rs. 5,10,33,343.23/- to the proposed allottee, for cash consideration, by way of a preferential issue on a private placement basis.
4.	c) Maximum number of specified securities to be issued The Board at its meeting held on 05 th February 2024 had approved raising funds through issuance of up to 24,97,961 (Twenty Four Lakhs Ninety Seven Thousand Nine Hundred and Sixty one) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each of the company at a price of Rs. 20.10 /- per Equity Share (at a premium of Rs. 10.43 /- per Equity Share) aggregating up to Rs. 5,02,09,016.10 such price being not less than the minimum price as on the Relevant Date (as set out below) determined in accordance with the provisions of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.	c) Maximum number of specified securities to be issued The Board at its meeting held on 05 th February 2024 had approved raising funds through issuance of up to 24,97,961 (Twenty Four Lakhs Ninety Seven Thousand Nine Hundred and Sixty one) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each of the company at a price of Rs. 20.43 /- per Equity Share (at a premium of Rs. 10.43 /- per Equity Share) aggregating up to Rs. 5,10,33,343.23/- such price being not less than the minimum price as on the Relevant Date (as set out below) determined in accordance with the provisions of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.
5.	d) Relevant Date In terms of the provisions of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations, relevant date for determining the floor price for the Preferential Issue is 06 th February 2024, being the date 30 (thirty) days prior to the date on which this resolution is deemed to have been passed, i.e., the last date specified for Postal Ballot (E-Voting).	d) Relevant Date In terms of the provisions of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations, relevant date for determining the floor price for the Preferential Issue is 09 th February 2024, being the date 30 (thirty) days prior to the date on which this resolution is deemed to have been passed, i.e., the last date specified for Postal Ballot (E-Voting).
6.	j) Shareholding Pattern of the Company before and after the Preferential Issue: Please refer the “Annexure - I” for the consolidated shareholding pattern given at the end of this Notice	j) Shareholding Pattern of the Company before and after the Preferential Issue: Please refer the “Annexure - I” for the consolidated shareholding pattern given at the end of this Notice. The total number of shares and percentage of the Promoter Shareholding in Pre issue segment, signifying the Sub-Total (A) is stated as 38.66% (Pre), which is in fact 36.96% (Pre) and Promoter Holding Rama Rajagopal stated as 17.39% (Pre), which is in fact 16.62% (Pre).
7.	k) Pricing of the preferential issue The Equity Shares of the Company are listed on BSE Limited (“BSE”) and National Stock Exchange of India Limited (“NSE”) (together referred to as the “Stock Exchanges”). NSE, being the Stock Exchange where the shares are frequently traded with higher trading volumes has been considered for determining the price in terms of the ICDR Regulations (“ICDR Regulations”). In terms of the ICDR Regulations, the floor price at which the Shares can be issued is Rs. 20.10 per Share, as per the pricing formula prescribed under the ICDR Regulations for the Preferential Issue and is the highest of the following: i. 90 Trading Days volume weighted average price (VWAP) of the Equity Shares of the Company preceding the Relevant Date: i.e. Rs. 19.17/- per Equity Share; ii. 10 Trading Days volume weighted average price (VWAP) of the Equity Shares of the Company preceding the Relevant Date: i.e. Rs. 20.10/- per Equity Share; or The Articles of Association of the Company do not prescribe a particular method to determine the price of the Preferential Issue.	k) Pricing of the preferential issue The Equity Shares of the Company are listed on BSE Limited (“BSE”) and National Stock Exchange of India Limited (“NSE”) (together referred to as the “Stock Exchanges”). NSE, being the Stock Exchange where the shares are frequently traded with higher trading volumes has been considered for determining the price in terms of the ICDR Regulations (“ICDR Regulations”). In terms of the ICDR Regulations, the floor price at which the Shares can be issued is Rs. 20.43 per Share, as per the pricing formula prescribed under the ICDR Regulations for the Preferential Issue and is the highest of the following: i. 90 Trading Days volume weighted average price (VWAP) of the Equity Shares of the Company preceding the Relevant Date: i.e. Rs. 19.16/- per Equity Share; ii. 10 Trading Days volume weighted average price (VWAP) of the Equity Shares of the Company preceding the Relevant Date: i.e. Rs. 20.43/- per Equity Share; or The Articles of Association of the Company do not prescribe a particular method to determine the price of the Preferential Issue.

All other particulars and details remain unchanged. The corrigendum shall be read in conjunction with the Notice dated 05th February 2024 together with the explanatory statement. This corrigendum is also available on the company's website viz. www.celebritygroup.com and websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. This Corrigendum has been sent electronically to all the registered shareholders as on the cut-off date, i.e. Friday, 02nd February 2024.

By Order of the Board
For **CELEBRITY FASHIONS LIMITED**
sd/-
S.Venkatraghavan
Chief Financial Officer

Date: 4th March, 2024
Place: Chennai



औसत कीमत लक्ष्य से बाजारों में मामूली बढ़त के संकेत

विश्लेषकों को उम्मीद है कि निफ्टी-50 में शामिल शेयर औसतन 6.6 फीसदी की बढ़त हासिल करेंगे जबकि निफ्टी मिडकैप में करीब 2 फीसदी का इजाफा होगा

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 4 मार्च

बेंचमार्क निफ्टी-50 इंडेक्स ने सोमवार को इस कैलेंडर वर्ष के लिए उच्चस्तर पर बंद होने के आठ रिकॉर्ड दर्ज किए। एक ओर जहां अंतर्निहित रफ़्तार तेजी की दिख रही है, वहीं ब्लूचिप इंडेक्स इस साल मामूली बढ़त दर्ज कर सकता है। यह आकलन इंडेक्स के वैयक्तिक शेयरों के औसत कीमत लक्ष्य के हिसाब से किया गया है।

इंडेक्स में शामिल शेयरों का मौजूदा भाव और उनका औसत कीमत लक्ष्य (ब्लूमबर्ग की तरफ से संकलित) संकेत देता है कि निफ्टी-50 इंडेक्स में औसतन 6.6 फीसदी का इजाफा होगा। वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 में क्रमशः 8.6 फीसदी व 2.2 फीसदी की बढ़ोतरी की क्षमता है। इस विश्लेषण की हालांकि सीमा यह है कि सभी शेयर विश्लेषकों के कवरज में नहीं हैं और विश्लेषक कीमत लक्ष्य में संशोधन आर्थिक कारकों में बदलाव के आधार पर करते हैं।

एचडीएफसी सिन्धोरिटीज के खुदरा शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि आम तौर पर कई शेयरों के लिए आय में सुधार औसत कीमत लक्ष्यों के मुकाबले तेज रहे हैं। विश्लेषक आक्रामक तरीके से



कीमत लक्ष्यों में इजाफे को लेकर सतर्क हैं जबकि फंडों के प्रवाह के कारण शेयर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वैश्विक कारकों, ग्रामीण भारत में नरमी और उच्च आधार प्रभाव आदि के कारण विश्लेषकों को आय वृद्धि में नरमी की चिंता है। साथ ही आम चुनाव के नतीजों की अनिश्चितता पर भी उनकी नजर है। चूंकि इंडेक्स में हर किसी का समान भारांक नहीं है। ऐसे में इंडेक्स के दिग्गजों में मामूली बढ़त भी प्रदर्शन की दिशा बदल सकती है।

उदाहरण के लिए अग्रणी भारांक वाले एचडीएफसी बैंक का औसत कीमत लक्ष्य अभी 1,928 रुपये है, जो आखिरी बंद भाव 1,433 रुपये से करीब 35 फीसदी ज्यादा है। अगर निजी बैंक का शेयर बाजार में तय उचित कीमत की ओर बढ़ता है तो यह निफ्टी इंडेक्स पर अरब डाल सकता है क्योंकि इंडेक्स पर इसका खासा प्रभाव है। बजाज फाइनेंस, अदाणी एंटरप्राइजेज और आईटीसी कुछ अन्य शेयर हैं जहां औसत कीमत लक्ष्य उनके मौजूदा भाव से

खासे ऊपर हैं। हालांकि व्यापक निफ्टी-500, मिड व स्मॉलकैप सूचकांकों में किसी एक शेयर का प्रभाव कम रह सकता है। बाजार पर नजर रखने वालों का कहना है कि औसत कीमत लक्ष्य उनके प्रदर्शन की माप करने का सही जरिया हो सकता है। निफ्टी-50, निफ्टी-500 और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांकों के करीब एक तिहाई शेयर अभी अपने-अपने औसत कीमत लक्ष्य से ऊपर कारोबार कर रहे हैं वहीं

निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स के 40 फीसदी से ज्यादा शेयर अपने औसत कीमत लक्ष्य से ऊपर कारोबार कर रहे हैं।

ट्रेडजिन के मुख्य परिचालन अधिकारी त्रिवेश डी ने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर बाजारों ने चुनाव से पहले सकारात्मक रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले एक साल की चाल के देखते हुए हमें इस समय सावधान रहना चाहिए। निफ्टी-50 इंडेक्स में पिछले एक साल में 27 फीसदी की उछाल आई है। निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांकों में क्रमशः 60 फीसदी व 72 फीसदी का इजाफा हुआ है।

त्रिवेश का मानना है कि आगे दोबारा रेटिंग की संभावना सीमित है क्योंकि आय आंशिक तौर पर ही मौजूदा बाजार मूल्यांकन को सहारा दे सकता है। ऐसे में बाजारों में मामूली बढ़त के अनुमान को देखते हुए हमें बाजारों में कैसे उतरना चाहिए? जसानी ने कहा कि निवेशकों को अपने कुल परिसंपत्ति आवंटन को बरकरार रखना होगा और उनमें मुनाफावसूली करनी होगी जो कम समय में काफी तेजी से बढ़ें और अपने फंडामेंटल से आगे ट्रेड कर रहे हों। नई खरीद के लिए उन्हें मूल्यांकन में विस्तार के बजाय आम में सुधार की संभावना से संकेत लेना चाहिए।

लगातार चौथे दिन तेजी, नए रिकॉर्ड पर सेंसेक्स, निफ्टी

भाषा

मुंबई, 4 मार्च

शेयर बाजारों में सोमवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में दोनों मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। मूडीज के 2024 के लिए आर्थिक वृद्धि अनुमान बढ़ाये जाने के बीच ऊर्जा और बैंक शेयरों में लिवाली से बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी बनी रही। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 66.14 अंक यानी 0.09 फीसदी चढ़कर अपने अबतक के उच्चतम स्तर 73,872.29 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह एक समय 183.98 अंक तक उछल गया था। निफ्टी भी 27.20 अंक यानी 0.12 फीसदी की तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर 22,405.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह अपने अबतक के उच्चतम स्तर 22,440.90 अंक तक चला गया था। लगातार चार सत्रों से जारी तेजी में सेंसेक्स 1,567 अंक यानी 2.15 फीसदी जबकि निफ्टी 454 अंक मजबूत हुआ।

विश्लेषकों के मुताबिक, मानक सूचकांक जरूर रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए लेकिन बाजार दायरे में रहा। मुख्य रूप से बैंक, ऊर्जा और दवा

शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी रही। जबकि आईटी, दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों और वाहन शेयर नुकसान में रहे। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'कमजोर वैश्विक रुख से बाजार सीमित दायरे में रहा। वहीं सतर्क रुख जारी रहने के साथ निवेशकों का ध्यान खास शेयरों पर रहा। इसके अलावा उपभोग आंकड़ा नरम रहने से निवेशक की धारणा प्रभावित हुई और वे दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों जैसे शेयरों से दूर रहे।'

नायर ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के वक्तव्य और यूरोपीय केंद्रीय बैंक की इस सप्ताह मौद्रिक नीति समीक्षा आने से पहले वैश्विक धारणा का रुख सतर्क रह सकता है। सेंसेक्स के शेयरों में एनटीपीसी सबसे ज्यादा 3.5 फीसदी चढ़ा। इसके अलावा पावरग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, ऐक्सिस बैंक,

टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल और इंडसइंड बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में जेएसडब्ल्यू स्टील में सर्वाधिक 2.49 फीसदी की गिरावट रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस और टाइटन भी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2024 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8 फीसदी कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.1 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। बीते वर्ष के लिए भारत के आर्थिक आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर रहे हैं, जिसकी वजह से मूडीज ने वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया है। बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.16 फीसदी लाभ में रहा जबकि स्मॉलकैप सूचकांक 0.78 फीसदी नुकसान में रहा।

फरवरी में नई ऊंचाई पर औसत कारोबार

बाजार के विशेषज्ञों ने कहा, यह निवेशकों के मजबूत भरोसे का संकेतक

खुशाबू तिवारी
मुंबई, 4 मार्च

उतार-चढ़ाव में इजाफे के बीच भारतीय इक्विटी बाजार में फरवरी में रोजाना का औसत कारोबार (नकदी व डेरिवेटिव) रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दोनों एक्सचेंजों पर नकदी कारोबार संयुक्त रूप से 1.27 लाख करोड़ रुपये का रहा वहीं एफएंडओ में यह 483 लाख करोड़ रुपये रहा।

नकदी व डेरिवेटिव में वॉल्यूम एक साल पहले के मुकाबले करीब दोगुना हो गया है। इसका कारण दुनिया के चौथे सबसे बड़े इक्विटी बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी है। शेयर कीमतों में तेजी के चलते कारोबार की तादाद पिछले एक साल में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। इससे शेयर बाजार के तंत्र में मौजूद प्रतिभागियों को मजबूती मिल रही है।

फरवरी 2023 में रोज का औसत कारोबार नकदी में 53,800 करोड़ रुपये था जबकि एफएंडओ में 208 लाख करोड़ रुपये का। मासिक आधार पर रोजाना का औसत कारोबार नकदी व डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए क्रमशः 3.7 फीसदी और 5 फीसदी बढ़ा है।

शेयरों की कीमतों में काफी फेरबदल के बाद भी वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि मूल्यांकन की चिंता ने निवेशकों को स्मॉलकैप व पीएसयू शेयरों में मुनाफावसूली के लिए प्रोत्साहित किया। स्मॉलकैप में निवेश करने वाले म्युचुअल फंडों को मिली नियामकीय

कारोबार में उछाल

■ दोनों एक्सचेंजों पर नकदी कारोबार संयुक्त रूप से 1.27 लाख करोड़ रुपये का रहा वहीं एफएंडओ में यह 483 लाख करोड़ रुपये रहा

■ फरवरी 2023 में रोज का औसत कारोबार नकदी में 53,800 करोड़ रुपये था जबकि एफएंडओ में 208 लाख करोड़ रुपये का

■ बीएसई अपनी प्रतिस्पर्धी एनएसई से डेरिवेटिव सेगमेंट में कुछ बाजार हिस्सेदारी वापस पाने में कामयाब रहा है

■ जनवरी में हिस्सेदारी घटकर 12.5 फीसदी रहने के बाद बीएसई ने फरवरी में इसे दोबारा 15.3 फीसदी पर पहुंचाया

चेतावनी का भी मनोबल पर असर पड़ा। निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 ने तीन महीने बाद पहला मासिक नुकसान दर्ज किया जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स व निफ्टी 1 फीसदी की बढ़त दर्ज करने में कामयाब रहे।

सैमको सिन्धोरिटीज के कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष नीलेश शर्मा ने कहा कि अभी बाजार अपने सर्वोच्च स्तर पर कारोबार कर रहे हैं और चूंकि हम आम चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। लिहाजा

उतारचढ़ाव भी अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है। उतारचढ़ाव वाले बाजारों में ट्रेडरों को प्रवेश करने और बाहर निकलने के ज्यादा मौके मिलते हैं। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम को सहारा मिलता है।

इस बीच बीएसई अपनी प्रतिस्पर्धी एनएसई से डेरिवेटिव सेगमेंट में कुछ बाजार हिस्सेदारी वापस पाने में कामयाब रहा है। जनवरी में बाजार हिस्सेदारी घटकर 12.5 फीसदी रहने के बाद बीएसई ने फरवरी में इसे दोबारा 15.3 फीसदी पर पहुंचा दिया। एक ब्रोकर ने कहा कि पिछले महीने कई ट्रेडिंग मेंबरों (ब्रोकरों) को एक्सचेंज ने अपने डेरिवेटिव सेगमेंट में शामिल किया। ये मौजूदा सदस्य थे लेकिन बीएसई डेरिवेटिव सेगमेंट में सक्रिय नहीं थे। इससे कारोबार बढ़ाने, नई भागीदारी और पहुंच में मदद मिली है।

बैंकेक्स व सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट मई में दोबारा पेश कर बीएसई ने अपना डेरिवेटिव सेगमेंट पिछले साल बहाल किया है। एक्सचेंज ने फरवरी में आर्थी घोषणा के समय कहा था कि वह संस्थागत ट्रेड के लिए विदेशी भागीदारों के साथ काम कर रहा है। साथ ही अपने तंत्र से प्रतिभागियों को जोड़ने, भागीदारों के लिए को-लोकेशन सुविधा में इजाफा करने में भी जुटा है।

पिछले महीने भारत का बाजार पूंजीकरण नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया और 388 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आने से पहले 400 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया था।

भारी खरीद-फरोख्त से 12

फीसदी चढ़ा बीएचईएल

दीपक कोरगांवकर
मुंबई, 4 मार्च

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) का शेयर आठ साल के उच्चस्तर 264.70 रुपये को छू गया। भारी खरीद-फरोख्त के बीच सोमवार को कंपनी का शेयर बीएसई के कारोबारी सत्र में 12 फीसदी चढ़ गया। इस शेयर में तीव्र उछाल इस रिपोर्ट के बाद आई कि एनटीपीसी की तरफ से सिंगरौली सुपर मेम्वर (ब्रोकरों) को एक्सचेंज ने अपने डेरिवेटिव सेगमेंट में शामिल किया। ये मौजूदा सदस्य थे लेकिन बीएसई डेरिवेटिव सेगमेंट में सक्रिय नहीं थे। इससे कारोबार बढ़ाने, नई भागीदारी और पहुंच में मदद मिली है।

बैंकेक्स व सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट मई में दोबारा पेश कर बीएसई ने अपना डेरिवेटिव सेगमेंट पिछले साल बहाल किया है। एक्सचेंज ने फरवरी में आर्थी घोषणा के समय कहा था कि वह संस्थागत ट्रेड के लिए विदेशी भागीदारों के साथ काम कर रहा है। साथ ही अपने तंत्र से प्रतिभागियों को जोड़ने, भागीदारों के लिए को-लोकेशन सुविधा में इजाफा करने में भी जुटा है।

पिछले महीने भारत का बाजार पूंजीकरण नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया और 388 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आने से पहले 400 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया था।

इसकी तुलना में एनएसईपी बीएसई सेंसेक्स 0.09 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 73,872 पर बंद हुआ।

इस शेयर में औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम आज करीब आठ गुना उछल गया। एनएसई व बीएसई पर आज बीएचईएल के कुल 25.77 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ। यह शेयर लगातार पांचवें दिन चढ़ा और इस अवधि में कुल 22 फीसदी की बढ़ोतरी तब दर्ज की गई जब बीएचईएल ने कोल इंडिया के साथ संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए, जो कोयले से चलने वाले 2,000 टन प्रतिदिन वाले अमोनियम नाइट्रेट प्लांट के लिए है। कंपनी ने कहा कि कोल इंडिया इस परियोजना के तहत सालाना उत्पादन के कम से कम 75 फीसदी अमोनियम नाइट्रेट की खरीद सुनिश्चित करेगी जो गुणवत्ता व कीमत को लेकर आपसी सहमति से तय शर्तों के मुताबिक होगा। इसमें 51 फीसदी शेयरधारिता कोल इंडिया के पास जबकि बाकी 49 फीसदी बीएचईएल के पास होगी।

नवंबर से बीएचईएल का शेयर 124 फीसदी उछला है, जिसकी वजह वित्तीय प्रदर्शन में सुधार और मजबूत ऑर्डर बुक है। 31 दिसंबर, 2023 को बीएचईएल की ऑर्डर बुक 1.09 लाख करोड़ रुपये थी जो मध्य अवधि में राजस्व का संकेत देती है।

‘कुछ वर्षों में दमदार बाजारों में से एक होगा जापान’

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 4 मार्च

निक्केई 225 सूचकांक सोमवार को पहली बार 40,000 के निशान पर पहुंचा। अपनी तेजी को जारी रखते हुए सूचकांक ने फरवरी में अपने 1989 के 34,000 के उच्चतम स्तर को फिर छुआ। वैश्विक निवेशकों ने शेयरधारकों के सुधरते प्रतिफल, कमजोर येन और कॉरपोरेट लाभ में तेजी को बजट से जापान की सबसे बड़ी कंपनियों पर दांव लगाया है।

विश्लेषक जापान पर उत्साहित बने हुए हैं। जापान के बाजार को मुख्य तौर पर टेक्नोलॉजी शेयरों में आई तेजी से मदद मिली है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार एआई के बढ़ते इस्तेमाल से जापानी कंपनियों को फायदा होने का अनुमान है, लगभग वैसे ही जैसे अमेरिकी कंपनियों को होगा।

मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है, 'जापान दूसरे बाजारों से अलग है। वहां की 53 प्रतिशत कंपनियों को एआई लाभार्थी के तौर पर देखा जाता है, जो अमेरिका की भागीदारी (54 प्रतिशत) जितनी है और यूरोप (50 प्रतिशत) से अधिक है। जापान को छोड़कर एशिया प्रशांत (39 प्रतिशत) से भी काफी ऊपर है।'

इस बीच, जापानी कंपनियों के शेयरधारकों को लगातार फायदा पहुंचाने और ज्यादा पूंजी सक्षम बनने की संभावना है। जेफरीज के विश्लेषकों का मानना है कि इससे निवेशक जापानी शेयरों के प्रति आकर्षित होंगे और बाजारों में तेजी को बढ़ावा मिलेगा। उनका अनुमान है कि जापान अगले सात साल में शानदार प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक होगा।



मजबूती की उम्मीद

■ जापान के बाजार को मुख्य तौर पर टेक्नोलॉजी शेयरों में आई तेजी से मदद मिली है

■ मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जापान की 53 प्रतिशत कंपनियों को एआई लाभार्थी के तौर पर देखा जाता है

अगले सात साल के लिए जेफरीज की सात भविष्यवाणियां:

दमदार प्रदर्शन वाले बाजारों में से एक: जापान 2023 और 2030 के बीच मजबूत प्रदर्शन वाले बाजारों में से एक होगा। जापान में शानदार शेयरधारक प्रतिफल की शुरुआत हो गई है। जेफरीज के अतुल गोयल ने एक ताजा रिपोर्ट में लिखा है कि कई वैश्विक निवेशक जापान को अभी भी कमजोर मान रहे हैं लेकिन जल्द ही इस नजरिये में बदलाव आ सकता है।

नियामकीय सुधार और सख्ती: मॉर्गन स्टैनली को सुधारों की उम्मीद है। हमें विश्वास है कि अगर कंपनियों ने ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी तो तक्यो शेयर बाजार, आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (मेती) और जापान की फाइनेंशियल

सर्विसेज एजेंसी (एफएसए) सख्त नियमन पेश करना जारी रखेंगे।

संस्थागत निवेशक गतिविधि: संस्थागत निवेशक गतिविधि में वृद्धि और निवेशकों के गहरे जुड़ाव से निरंतर वैल्यू पैदा हो सकती है। गोयल ने कहा, 'हमारा मानना है कि पहले के मुकाबले ज्यादा अभियानों, पुनर्खरीद से परे मांग की उच्च गुणवत्ता, बिग-केप बनने की राह पर अग्रसर कंपनियों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।'

सुधार: जेफरीज को लगातार सुधारों से जापान कॉरपोरेट जगत में पहले की तुलना में बड़े बदलाव की उम्मीद है। ऐसे बदलाव जो पिछले कई दशक में भी नहीं हुए हैं। 80 प्रतिशत से ज्यादा जापानी कंपनियां शेयरधारक वैल्यू वृद्धि के लिए प्रदर्शन में सुधार के तक्यो शेयर बाजार के अनुरोधों पर ध्यान दे रही हैं।

समेकन: गोयल का मानना है कि घरेलू और अनुकूल विलय-अधिग्रहण, सीमा-पार साझेदारियों/संयुक्त उपक्रमों से अगले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव आएगा। दोस्ताना अधिग्रहण की परंपरा बन सकती है।

इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई): जेफरीज का मानना है कि जापानी उद्योग जगत आरओई के मोर्चे पर भरोसा बढ़ाएगा, क्योंकि यह पूंजी को उन संपत्तियों की ओर पुनः आवंटित करता है जो पूंजी की लागत से अधिक रिटर्न दे सकती हैं।

वैश्विक कंपनियां: अगले सात साल के दौरान जापानी उद्योग जगत द्वारा ज्यादा दिग्गज पैदा किए जाने की संभावना है जो वैश्विक मंच पर चमकेंगे। अगले सात साल के दौरान कई दिग्गज कंपनियां तैयार होंगी। हालांकि इनमें से कोई भी वाहन उद्योग की नहीं होंगी जो प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए संघर्षरत रह सकता है।

निक्केई 40,000 के पार,

जापान में तेजी क्यों

शिवम त्यागी
मुंबई, 4 मार्च

जापान के प्रमुख शेयर सूचकांक निक्केई 225 ने सोमवार को 40,000 का आंकड़ा पार किया। आईटी शेयरों में तेजी के वजह से इस सूचकांक में बड़ी तेजी दर्ज करने में मदद मिली है। निक्केई सूचकांक 0.97 प्रतिशत बढ़त के साथ 40,192.48 पर पहुंच गया। वहीं टॉपिक्स ने 2700 का आंकड़ा छूने और पिछले शुक्रवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मामूली 0.1 प्रतिशत की तेजी दर्ज की।

इस तेजी को सेमीकंडक्टर से जुड़े शेयरों से मदद मिली, जिनमें टोक्यो इलेक्ट्रॉन और एडवांटेड स्ट्रामिल हैं। इन दोनों शेयरों में 3 प्रतिशत की तेजी आई। यह तेजी पिछले शुक्रवार को अमेरिकी शेयरों में बड़ी तेजी के बाद आई है। पिछले सप्ताह चिप निर्माता एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण 2 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशक एआई में लगातार वृद्धि से उत्साहित हैं, सेमीकंडक्टर खर्च बरकरार रहने की उम्मीद कर रहे हैं और विनिर्माण प्रक्रिया से जुड़ी जापानी कंपनियों को इसका फायदा मिलने की संभावना है।

रिकॉर्ड तेजी

निक्केई सूचकांक में बड़ी तेजी देखी जा रही है। इस सूचकांक ने पिछले महीने 34 वर्षों में पहली बार सर्वाधिक ऊंचा स्तर हासिल किया है। निक्केई पिछली बार 22 फरवरी को दिसंबर 1989 के अपने पिछले सर्वाधिक ऊंचे स्तर से ऊपर बंद हुआ था। ताजा तेजी के लिए मजबूत आय और जापान सरकार द्वारा पेश निवेशक-अनुकूल पहलों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कॉरपोरेट प्रशासनिक सुधारों से आकर्षित विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कमजोर येन और छोटे निवेशकों के लिए निवेश योजना निर्माण इंडीविजुअल सर्विसेस अकाउंट (नोसा) ने भी निक्केई की तेजी में बड़ा योगदान दिया।

जेनएआई से ताकत

जेनएआई ने जापान को वैकल्पिक विनिर्माण देश के रूप में स्थापित किया है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुमामोतो प्रांत में संयंत्रों की स्थापना कर रही है और जापान की नई सरकार समर्थित कंपनी रैपिडस ने घरेलू तौर पर आधुनिक चिप बनाने के लिए आईबीएम के साथ भागीदारी की है।

शुद्धिपत्र	
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 12 माह की अवधि के लिए अप्रेंटिस की नियुक्ति	
हमारी अधिसूचना दिनांक 21.02.2024 के अन्तर्गत, यह अधिसूचित किया जाता है कि अप्रेंटिस की नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि 27.03.2024 तक बढ़ा दी गई है एवं परीक्षा की नई तिथि 31.03.2024 निर्धारित की गई है। दिनांक 21.02.2024 की अधिसूचना के अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।	
अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अधिक जानकारी के लिए वे बैंक की वेबसाइट https://www.centralbankofindia.co.in देखें।	
स्थान: मुंबई	महाप्रबंधक (मार्गप्र)
दिनांक: 05.03.2024	

POST OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF AKM CREATIONS LIMITED ("TARGET COMPANY")	
Registered Office: C-110, G/F Bholu Nath Nagar, Shahdara, Delhi, New Delhi-110032 Email: akmlace@gmail.com ; Website: www.akmlace.com CIN: L74110DL2009PLC196375	

Open Offer ("Offer") for Acquisition of upto 22,39,166 (Twenty-Two Lakh Thirty-Nine Thousand One Hundred and Sixty-Six) Equity Shares of face value INR 10/- (Rupees Ten only) each from equity shareholders of AKM Creations Limited ("Target Company"), by Arhat Touch Private Limited (Acquirer) (PAN: AAWCA4909M)

This Post Offer Advertisement is being issued by Fast Track Fincse Private Limited ("Manager to the Offer") on behalf of the Acquirer in connection with the Offer made by the Acquirer to acquire 22,39,166 (Twenty-Two Lakh Thirty-Nine Thousand One Hundred and Sixty-Six) Equity Shares of Face Value of INR 10/- (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares") of the Target Company at INR 15/- (Rupees Fifteen Only) per Equity Shares, representing 26% of the outstanding Equity Share Capital of the Target Company ("Offer"), in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and amendments thereof ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") [Regulations]. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned Offer was made in the Business Standard (English-All Edition), Business Standard (Hindi-All edition) and Pratahkal (Mumbai edition) on October 21, 2023 (Saturday).

No.	Name of The Target Company	AKM Creations Limited
1	Name of The Acquirer and PACs	Arhat Touch Private Limited (PAN: AAWCA4909M)
2	Name of The Manager to the Offer	Fast Track Fincse Private Limited
3	Name of The Registrar of the Offer	Skyline Financial Services Private Limited
4	Offer Details: A) Date of Opening of the Offer B) Date of Closure of the Offer	Wednesday, February 14, 2024 Wednesday, February 28, 2024
5	Date of Completion of Payment of Consideration and Communication of Rejection/Acceptance	Thursday, March 14, 2024

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Letter of Offer	Actuals
1	Offer Price	INR 15/- (Rupees Fifteen Only)	INR 15/- (Rupees Fifteen Only)
2	Aggregate No. of Shares Tendered	22,39,166 Equity Shares*	Nil
3	Aggregate No. of Shares Accepted	22,39,166 Equity Shares*	Nil
4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Shares)	Rs. 3,35,87,490/- (Rupees Three Crore Thirty-Five Lakh Eighty-Seven Thousand Four Hundred Ninety Only).	Nil
7.5	Shareholding of the Acquirer before Public Announcement a) No. b) % of Equity Share Capital	Nil Nil	Nil Nil
7.6	Shares acquired/ to be acquired by way of Share Purchase Agreement a) No. b) % of Equity Share Capital	8,70,175 10.10%	8,70,175* 10.10%
7.7	Shares acquired by way of Open Offer a) No. b) % of Equity Share Capital	22,39,166* 26%*	Nil Nil
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement ("DPS") a) No. b) % of Equity Share Capital c) Price of Shares Acquired	Nil Nil Nil	Nil Nil Nil
7.9	Post Offer shareholding of the Acquirer and PACs	No. of Shares 31,09,341*	& of Equity Share Capital 36.10%* No. of Shares 8,70,175* & of Equity Share Capital 10.10%*
7.10	Pre & Post Offer shareholding of the Public a) No. b) % of Equity Share Capital	Pre-Offer 74,42,000 86.41%	Post-Offer 52,02,834 60.41% 74,42,000 86.41% 77,42,000* 89.89%

* Assuming full acceptance in the Open Offer.
The Acquirer shall complete the transaction under Share Purchase Agreement within stipulated time period as provided under Reg. 22(3) of SEBI(SAST) Regulations, 2011.
\$ No share were tendered in the open offer and hence there are no changes in the shareholding of the Public Category.
& The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.
9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI, BSE Limited and registered office of the Target Company.
Capitalized terms used in this Advertisement, but not defined herein, shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dated February 07, 2024.
Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer.



Fast Track Fincse Private Limited
Office No. V-116, First Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Tel. No.: +91-22-43029809
Email: mtb@fincse.com
Website: www.fincse.com
Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma
SEBI Reg. No.: IM0000012500
CIN: U65191DL2010FTCO200381
Place: Delhi, Date: 04.03.2024

